

प्रेस नोट

दिनांक 12.06.2022

सराहनीय कार्य थाना मोहनगंज पुलिस

03 गुमशुदा बच्चो को 01 घण्टे के अंदर तलाश कर सकुशल परिजनो को किया गया सुपुर्द ।

गुमशुदा बच्चो को बरामद कर परिजनो को लौटायी मुस्कान

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री विनोद कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री अजय सिंह व प्रभारी निरीक्षक श्री अमर सिंह थाना मोहनगंज के कुशल नेतृत्व में 03 बच्चों को 01 घण्टे के अंदर सकुशल बरामद कर परिजनो को किया गया सुपुर्द ।

आज दिनांक 12.06.2022 को प्रातः काल पीआरवी 2792 द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पूरे शंकरदूबे मजरे गडेहरी के रहने वाले श्री राज कुमार दूबे की दो पुत्रियां 1.अल्का उम्र 12 वर्ष, 2.भूमि दूबे 10 वर्ष व एक पुत्र 3.आदि दूबे उम्र 07 वर्ष बीती रात्रि में सोते समय कहीं गायब हो गये हैं । पीआरवी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनगंज अमर सिंह मय टीम व चौकी प्रभारी शंकरगंज बृजभूषण पाठक मय पुलिस बल के तत्काल गुमशुदा के घर पर गये, गुमशुदा बच्चो के सम्बन्ध में उनके परिवारीजनो व आस पास के लोगो से आवश्यक जानकारी करके गुमशुदा के तलाश हेतु आस-पास के गांव में करते हुये शारदा नहर राजामऊ पुल से तिलोई के तरफ नहर के किनारे होते हुये ग्राम डीहवा के पास पहुंचे तो जानकारी हुई कि गुमशुदा बच्चे नहर के किनारे पटरी पर जा रहे है तथा ईधर उधर भटक रहे है तथा गांव डीहवा के ही कुछ लोगो द्वारा रोक कर उनसे पूछताछ किया जा रहा है । उक्त सूचना पर गुमशुदा तीनों बच्चों 1.कु0 अल्का दूबे , 2.कु0 भूमि दूबे व 3.आदि दूबे को ग्राम डीहवा के पास पहुंचकर सकुशल बरामद किया गया । बच्चो को महिला आरक्षी पिका वर्मा के देखरेख मे सुपुर्द कराया गया तथा परिजनो से संपर्क कर गुमशुदा के बाबा शत्रुधन दूबे व उनके परिवारीजन को सुपुर्द किया गया ।

इस प्रकार सूचना मिलने के एक घण्टे के अन्दर तीनों लापता बच्चों कु0 अल्का दूबे , कु0 भूमि दूबे , आदि दूबे की सकुशल बरामदगी की गयी । बच्चो के सकुशल एक घण्टे के अंदर बरामद होने कारण जनमानस द्वारा पुलिस बल भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी व अमेठी पुलिस को धन्यवाद दिये ।

लापता बच्चो का नाम पता –

1. कु0 अल्का उम्र 12 वर्ष पुत्री श्री राज कुमार दूबे
2. कु0 भूमि दूबे 10 वर्ष पुत्री श्री राज कुमार दूबे
3. आदि दूबे उम्र 07 वर्ष पुत्र श्री राज कुमार दूबे निवासीगण पूरे शंकर दूबे मजरे गडेहरी थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।

बच्चो को बरामद करने वाली पुलिस टीम –

1. प्र0नि0 अमर सिंह थाना मोहनगंज, अमेठी
2. उ0नि0 श्री बृजभूषण पाठक चौकी प्रभारी शंकरगंज थाना मोहनगंज, अमेठी
3. का0 अंशुल कुशवाहा थाना मोहनगंज अमेठी
4. कां0अभिषेक कुमार थाना मोहनगंज अमेठी
5. का0 सुशील कुमार पाण्डेय थाना मोहनगंज अमेठी
6. म0का0 पिका वर्मा थाना मोहनगंज अमेठी ।